



November 2, 2023

<b>BSE Ltd. Corporate Relationship Department 1st Floor New Trading Rotunda Building, P J Towers Dalal Street Fort, Mumbai-400001 Scrip Code – 530517</b>	<b>National Stock Exchange of India Ltd. Listing Department, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051 Scrip Code – RELAXO</b>
---	---

**Sub: Newspaper Advertisement for Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended on September 30, 2023**

Dear Madam/ Sir,

Please find enclosed newspaper advertisement for Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended on September 30, 2023 published in Economics Times (Mumbai and Delhi – English Edition) and Navbharat Times (Delhi – Hindi Edition) on November 2, 2023.

We request you to take the above information on record.

Thanking You,  
Yours Sincerely,

For **Relaxo Footwears Limited**,

**Ankit Jain**  
**Company Secretary & Compliance Officer**

Encl : as above

## **RELAXO FOOTWEARS LIMITED**

**Registered Office:** Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place,  
District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085. Phones: 46800 600, 46800 700  
Fax: 46800 692 E-mail: [rfl@relaxofootwear.com](mailto:rfl@relaxofootwear.com)  
**CIN L74899DL1984PLC019097**



[www.relaxofootwear.com](http://www.relaxofootwear.com)

### Market Trends

STOCK INDICES	% CHANGE
NIFTY 50	18983 <b>0.47</b>
S&P Sensex	63591 <b>0.44</b>
MSCI India	1275 <b>0.56</b>
MSCI EM	2351 <b>0.04</b>
MSCI BRIC	538 <b>0.31</b>
MSCI World	12703 <b>0.21</b>
Nikkei	31602 <b>2.41</b>
Hong Kong	17102 <b>0.06</b>
Korea (KOSPI)	2302 <b>1.03</b>
Straits Times	3077 <b>0.29</b>

OIL (\$/BBL)	DUBAI CRUDE	WTI
	\$5.54	\$5.82
	0.32	

COLD RATE	US (\$/CWT)	India (₹/100kg)
LPEN	1993.30	69820.00
LAST	1992.40	69917.00
Prev. chg. (%)	-0.10	-0.04

Source: Bloomberg, MCK, ETB

## US central bank leaves door open for hike, acknowledges economy's surprising strength Fed Leaves Interest Rates Unchanged

**Reuters**

Washington: The Federal Reserve held interest rates steady on Wednesday but left the door open to a further increase if borrowing costs in a policy statement that acknowledged the US economy's surprising strength, but also noted that the tightest financial conditions have been felt by businesses and households.

"Economic activity expanded at a strong pace in the third quarter," the US central bank said in a policy statement after a two-day meeting in which officials unanimously agreed to leave the benchmark overnight interest rate in the 5.25-5.50% range where it has been since July.

"The language marked an upgrade to the 'solid pace' of activity the Fed saw as of its September meeting, and followed on recent data that showed US gross domestic product grew at a 4.9% annual rate in the third quarter.

Though markets think the Fed may be done raising its policy rate, with financial conditions tightening on their own through higher market-based interest rates, data pointing to a stronger-than-expected economy and labor market have kept the prospect of another hike on the table.

The Fed's latest statement noted that with job gains still "strong" and inflation still "elevated," the central bank continues to consider "the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time."

Fed Chair Jerome Powell will hold a press conference at 2:30 p.m. EDT to elaborate on the statement and an economic outlook that, so far, has defied expectations of an imminent slowdown.

His words may take on particular importance to investors trying to divine whether the Fed still plans to raise rates again, as a majority of its officials indicated in a September round of economic projections.

The policy statement itself has become increasingly sparse as officials have become less certain about their next move, balancing a sluggish but continuing fall in inflation against a sense the economy is likely to slow in coming months, and concern that pushing too much harder with rate increases could cause it to slow more than needed.



All eyes on Fed Chair Jerome Powell for clues to policy outlook - Reuters

The Fed's latest statement noted that with job gains still "strong" and inflation still "elevated," the central bank continues to consider "the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time."

Fed Chair Jerome Powell will hold a press conference at 2:30 p.m. EDT to elaborate on the statement and an economic outlook that, so far, has defied expectations of an imminent slowdown.

His words may take on particular importance to investors trying to divine whether the Fed still plans to raise rates again, as a majority of its officials indicated in a September round of economic projections.

The policy statement itself has become increasingly sparse as officials have become less certain about their next move, balancing a sluggish but continuing fall in inflation against a sense the economy is likely to slow in coming months, and concern that pushing too much harder with rate increases could cause it to slow more than needed.

## FALLS TO 83.29 A DOLLAR Outflows from Indian equities, dollar demand from oil cos also put pressure on local unit Rupee Closes at a New Low on US Rate Worries

**Bhaskar.Dutta@timesgroup.com**

Mumbai: The rupee on Wednesday closed at a new low versus the US dollar as risk aversion ahead of the Federal Reserve's statement, overseas investment outflows from Indian equities and dollar demand from oil importers exerted pressure on the local currency.

The rupee settled at 83.29 per US dollar on Wednesday, a new record closing low. The local unit had settled at 83.25 per US dollar on Tuesday. So far in 2023, the rupee has depreciated 0.7% versus the US dollar. The rupee's previous record closing low was 83.23 per US dollar.

Currency traders predicted more weakness for the rupee in the coming days. "The Indian rupee hit a record low at a close. The weaker PMJ numbers, slow eight core infra data and foreign fund outflows weighed on the local rupee ahead of the FOMC decision," DLP Parmar research analyst at HDFC Securities said.

"Spot USD-INR is expected to head towards 83.50 as a hurdle of 83.30 is likely to cross tomorrow looking at the post-market price action in the derivative and forward markets. In the near term, 83/\$1 will act as strong support," he said.


Higher US interest rates and bond yields typically lead to debs, capital flowing out of emerging markets and heading towards the world's largest economy. This leads to weakness in emerging market currencies. "The Fed has raised interest rates by 255 basis points since March 2022 to bring down high inflation in the US."

The dollar index, which measures the US currency against six major global peers, strengthened to a high of 106.68 during Indian trading hours on Wednesday. Two months ago, the index was trading at 103.63.

Foreign portfolio investors have sold \$1.8 billion worth of Indian equities in September and October, respectively, official data showed.

A rise in crude oil prices also hurt the rupee as fuel importers looked to lock in purchases of the dollar-denominated commodity. Forging further increases in prices amid the war in the Middle East, Brent January crude futures rose 0.8% to \$85.68 a barrel on Wednesday, Reuters reported.

High crude oil prices threaten to push up India's trade deficit and inflation, given that the country is a major importer of the commodity.



setting at 63,591. Analysts are keenly awaiting the comments of Chair Jerome Powell for insights into the Fed's future policy decisions.

Foreign portfolio investors (FPIs) were net sellers of Indian equities valued at ₹1,817 crore on Wednesday, while domestic institutional investors (DIIs) bought shares worth ₹1,522 crore, as per BSE provisional data.

## SENSEX SLIPS 284 POINTS TO 63,591 D-St Falls for a 2nd Day on Weak Factory Data

**Our Bureau**

Mumbai: India's equity benchmarks ended lower for the second day on Wednesday, driven by India's manufacturing activity, which recorded an 8-month low at 88.3 in October. Additionally, market apprehensions ahead of the interest rate decision from the US Federal Reserve, scheduled late Thursday, added to the overall market volatility.

The Nifty declined by 90 points, or 0.47%, closing at 18,988, while the Sensex witnessed a decline of 284 points, or 0.44%.

### RELAXO FOOTWEARS LIMITED

Reg. Office: Agarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector - 3, Rohini, Delhi - 110085 (India), Phones: 91-11-46800500, 46300700 Fax No. 91-11-46800692  
E-mail: [rl@relaxofootwear.com](mailto:rl@relaxofootwear.com), Website: [www.relaxofootwear.com](http://www.relaxofootwear.com)  
CIN: L74899DL1984FLC019057

#### EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
	Unaudited				Audited
1. Total Income from Operations	725.86	675.31	1471.95	1346.63	2801.34
2. Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary Items)	60.39	30.44	136.15	84.02	210.01
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	60.39	30.44	136.15	84.02	210.01
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	44.19	22.40	100.51	61.07	154.47
5. Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	44.99	24.16	101.80	62.75	156.43
6. Equity Share Capital	24.89	24.89	24.89	24.89	24.89
7. Reserves excluding revaluation reserve	-	-	-	-	1830.16
8. Earnings Per Equity Share of Face Value of ₹ 1/- each (in ₹)					
Basic	1.78	0.90	4.04	2.45	6.21
Diluted	1.78	0.90	4.04	2.45	6.21

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Half Yearly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly / Half Yearly Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites, [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website [www.relaxofootwear.com](http://www.relaxofootwear.com).

For and on behalf of the Board of Directors  
Sd/-  
**Pankaj Shrivastava**  
Chairperson - Independent Director  
Delhi, November 1, 2023  
DIN: 000131442

RELAXO FLITE | SPARX | Bahamas

### Powering Progress through Energy Efficiency

India Setting an Example for the World

"Unprecedented possibilities are emerging for energy sector in India that is moving with a resolution of a Viksit Bharat" - Narendra Modi, Prime Minister

#### Those who outshine in the field of Energy Efficiency can apply for

### 33rd National Energy Conservation Awards (NECA) 2023

Sectors: Industries, Transport, Buildings, Institutions, Appliances

### 3rd National Energy Efficiency Innovation Awards 2023

Category A: Buildings, Transport, Industries | Category B: Students & Research Scholars

To Submit Entries Register at:  
[www.neca.beeindia.gov.in](http://www.neca.beeindia.gov.in)

Fill New User Registration Details | Read & Accept Terms & Conditions | Upload Necessary Document & Submit

Last date for submission:  
**9th November, 2023**

Scan the QR Code to know more

There's a Podcast on staying motivated. Even in meetings that could be texts.

Spotify Podcasts, for all things Self-help.

## Sun Pharma's Focus on Specialty Drugs Pays Off

**Kiran.Somvanshi@timesgroup.com**

FT Intelligence Group: India's largest pharma company's pivot to global specialty drugs is paying off now. Its September quarter performance was bolstered by the growing traction of its specialty product portfolio. With an 11% surge in revenues and 5% rise in profits, the Street cheered the performance leading to the stock closing 2.5% higher on Wednesday.

The company's revenues grew 11% driven by strong growth posted by the India business and the global specialty sales in the US. A third of the company's revenues is earned each from India and the US. Sun's market share in India increased from 8.5% to 8.4% for the year ended September 2023. The company expanded its sales force strength in India to improve its geographical and doctor penetration. Sun has over 15,500 medical representatives with the highest field force productivity amongst key players in India.

its US formulations business grew 3% with the company being the 11th largest player in the US generics market with presence in specialty generics and OTC segments. The company has a robust pipeline of 39 ANDAs and 13 NDAs pending for approval with USFDA.

The global specialty business now contributes 15% to the company's overall business comprising a portfolio of promising brands such as Humva, Cequa, Odomez, Nirxol and Absorica. There is also a pipeline of six molecules, which the company is investing in such as deuterixolimb and Niclego, which are undergoing clinical trials. The company is growing its specialty portfolio through a fair mix of acquisitions with Concert Pharma being the latest.

Even as the raw material cost climbed down from 25% of revenues a year ago to 23% in the September quarter, the other expenses increased from 28% of revenues to nearly 32% in the quarter.

Continued on >> Smart Investing

# Markets

Hope Greed Fear Panic

Beating Volatility

WWW.ETMARKETS.COM MUMBAI, THURSDAY, 2 NOVEMBER 2023

SMART INVESTING  
TVS Grows Margins, to Retain its D-St Edge

### Market Trends

STOCK INDICES	% CHANGE
NIFTY 50	18988 <b>0.47</b>
S&P Sensex	63591 <b>0.44</b>
MSCI India	1275 <b>0.56</b>
MSCI EM	2351 <b>0.01</b>
MSCI BRIC	538 <b>0.04</b>
MSCI World	12703 <b>0.21</b>
Nikkei	31602 <b>0.21</b>
Hong Kong	17102 <b>1.06</b>
Kospi(Korea)	2302 <b>0.03</b>
Straits Times	3077 <b>0.29</b>

Oil (BBL)	DUBAI CRUDE	WTI
	\$5.54	\$5.82
	0.32	0.32

COLD RATE	US (50C)	India (100C)
LPTN	1993.30	608.20.00
CASH	1992.40	609.17.00
Prev. chg. (%)	-0.10	-0.04

Source: Bloomberg, M&E, etc.

## Continues to consider 'the extent of additional policy firming to return inflation to 2% over time'

# Fed Holds Rates, Leaves Door Open to a Further Increase

**Reuters**  
Washington: The Federal Reserve held interest rates steady on Wednesday but left the door open to a further increase in borrowing costs in a policy statement that acknowledged the US economy's surprising strength, but also added to the tighter financial conditions faced by businesses and households.

"Economic activity expanded at a strong pace in the third quarter," the US central bank said in a policy statement after a two-day meeting in which officials unanimously agreed to leave the benchmark overnight interest rate in the 5.25%-5.50% range where it has been since July. The language marked an upgrade to the "solid pace" of activity the



Fed saw as of its September meeting, and followed by recent data that showed US gross domestic product grew at a 4.9% annual rate in the third quarter.

Though markets think the Fed may be done raising its policy rate, with financial conditions tightening on their own through higher market-based interest rates, data pointing to a stronger-than-expected economy and labour market have kept the prospect of another hike on the table.

The Fed's latest statement noted that with jobs gains still "strong" and inflation still "elevated," the central bank continues to consider "the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time."

Fed Chair Jerome Powell's

in next move, balancing a staunch but continuing fall in inflation against a sense the economy is likely to slow in coming months, and concern that pushing too much harder will have excessive side effects. He also noted that the Fed's goal is to slow more than needed.

The statement said the Fed was still watching the developing impact of its past rate hikes as it mullied further action, cognizant of the risks with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments.

The phrase has been used to indicate a degree of patience in deciding on further rate increases, and an acknowledgment that the full impact of the 25 percentage points in rate hikes since March of 2022 has yet to be felt.


## FALLS TO 83.29 A DOLLAR

# Rupee Closes at a New Low on US Rate Worries

**Bhaskar.Dutta@timesgroup.com**  
Mumbai: The rupee on Wednesday closed at a new low versus the US dollar as a risk aversion on the part of the Federal Reserve's statement on overseas investment outflows from Indian equities and dollar demand from oil importers exerted pressure on the local currency.

The rupee settled at 83.29 per US dollar on Wednesday, a new record closing low. The local unit had settled at 83.25 per US dollar on Tuesday. So far in 2023, the rupee has depreciated 6.7% versus the US dollar. The rupee's previous record closing low was 83.23 per US dollar.

Currency traders predicted more weakness for the rupee in the coming days. The bid to announce a record low at a close. The weaker PMU numbers, slower eight core infla data and a Fed rate hike on Wednesday on the local rupee ahead of the FOMC decision, DIMP Paramar research analyst at HDFC Securities said.



"Spot USD-INR is expected to be a bit towards 83.50 as a hurdle of 83.30 is likely to cause a narrow looking at the post market price action in the derivatives and forward markets. In the near term, 83/81 will act as a support," he said.

Higher US interest rates and bond yields typically lead to a global capital flowing out of emerging markets and heading towards the world's largest economy. This leads to weakness in emerging market currencies. The Fed has raised interest rates by 255 basis points since March 2022 to bring down high inflation in the US.

The dollar index, which measures the US currency against six major global peers, strengthened to a high of 106.68 during Indian trading hours on Wednesday. Two months ago, the index was trading at 103.63.

Foreign portfolio investors have sold \$1.84 billion worth of Indian equities in September and October, respectively, official data showed.

Arise in oil prices also hurt the rupee as fuel importers look to lock in purchases of the dollar-denominated commodity. Fearing further increases in prices amid the war in the Middle East, Brent January crude oil futures rose 0.8% to \$85.88 a barrel on Wednesday, Reuters reported.

High crude oil prices threaten to push up India's trade deficit and inflation, given that the country is a major importer of the commodity.

## SENSEX SLIPS 284 POINTS TO 63,591

# D-St Falls for a 2nd Day on Weak Factory Data

**Our Bureau**  
Mumbai: Indian equity benchmarks ended lower for the second day on Wednesday driven by India's manufacturing activity, which recorded an 8-month low at 88.5 in October. Additionally, market apprehensions ahead of the interest rate decision from the US Federal Reserve, scheduled late Thursday, added to the overall market volatility.

The Nifty declined by 90 points, or 0.47%, closing at 16,988, while the Sensex witnessed a decline of 284 points, or 0.44%.

setting at 63,591. Analysts are keenly awaiting the comments of Chair Jerome Powell for insights into the Federal Reserve's future policy decisions.

Foreign portfolio investors sold shares worth ₹1,817 crore on Wednesday. DII bought shares worth ₹5,222 crore.

Domestic institutional investors (DII) bought shares worth ₹1,322 crore, as per BSE provisional data.

## Sun Pharma's Focus on Global Specialty Drugs Pays Off

Stock fairly valued amid growth opportunities for the co in domestic, US and emerging markets

### Strong Formulation

Sun Pharma's Consolidated Q2 FY24 Performance

Parameters	Q2 FY24	Q2 FY23	YOY % Chg
Net Sales	12,033	10,920	11.0
India Formulations	3,842	3,500	11.0
US Formulations	3,552	3,291	11.9
Emerging Markets	2,354	2,070	13.7
ROW Formulations	1,700	1,443	17.7
ATI Sales	437	474	5.1
Others	68	70	2.9
EBITDA	3,179	2,956	7.5
EBITDA Margin (of net sales)	26.1	27	-30 bps
R&D Expenditure	773	571	35.4
Net Profit	2,375	2,262	5.0

Fig in crore

**Kiran.Somvanshi@timesgroup.com**  
Its US formulations business grew 3% with the company being the fifth largest player in the US generics market with presence in specialty, generics and OTC segments. The company has a robust pipeline of 39 ANDAs and 13 NDAs pending for approval with USFDA.

The global specialty business now contributes 16% to the company's overall business comprising a portfolio of promising brands such as Lurice, Coqia, Olanzo, Winlevi and Absorica. There is also a pipeline of six molecules which the company is investing in such as deurnolimus and Kildage which are undergoing clinical trials in the US. A part of the company's revenues is earned each from India and the US. Sun's market share in India increased from 8.3% to 8.4% for the year ended September 2023. The company expanded its sales force strength in India to improve its geographical and doctor penetration. Sun has over 12,200 medical representatives with the highest field force productivity amongst the key players in India.

**ET ANALYSIS**  
The company's revenues grew 11% driven by a strong growth posted by the India business and the global specialty sales in the US. A part of the company's revenues is earned each from India and the US. Sun's market share in India increased from 8.3% to 8.4% for the year ended September 2023. The company expanded its sales force strength in India to improve its geographical and doctor penetration. Sun has over 12,200 medical representatives with the highest field force productivity amongst the key players in India.

**Continued on » Smart Investing**

## RELAXO FOOTWEARS LIMITED

Reg. Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector - 3, Rohini, Delhi - 110085 (India). Phone: 91-11-46800500, 46300700. Fax No. 91-11-46800692. E-mail: [rl@relaxofootwear.com](mailto:rl@relaxofootwear.com). Website: [www.relaxofootwear.com](http://www.relaxofootwear.com). CIN: L74899DL1984FC019057

### EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended 31.03.2023
	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	
	Unaudited				Audited
1. Total Income from Operations	725.86	675.51	1471.95	1346.63	2801.34
2. Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary Items)	60.38	30.44	136.15	84.02	210.01
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	60.38	30.44	136.15	84.02	210.01
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	44.19	22.40	100.51	61.07	154.47
5. Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	44.99	24.16	101.80	62.75	156.43
6. Equity Share Capital	24.89	24.89	24.89	24.89	24.89
7. Reserves excluding revaluation reserve	-	-	-	-	1830.16
8. Earnings Per Equity Share of Face Value of ₹ 1/- each (in ₹)					
Basic	1.78	0.90	4.04	2.45	6.21
Diluted	1.78	0.90	4.04	2.45	6.21

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Half Yearly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly / Half Yearly Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites, [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website [www.relaxofootwear.com](http://www.relaxofootwear.com).

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/  
**Pankaj Shrivastava**  
Chairperson - Independent Director  
Delhi, November 1, 2023  
DIN: 000131442

## PDS Limited

(Erstwhile PDS Multinational Fashions Limited)

Gross Merchandise Value (₹ in Cr) | Gross Margins (%) | PAT Margins (%)

Quarter	Gross Merchandise Value (₹ in Cr)	Gross Margins (%)	PAT Margins (%)
Q2 FY23	1,211	13%	13%
Q2 FY24	1,500	16%	16%
Q2 FY23	1,211	13%	13%
Q2 FY24	1,500	16%	16%
Q2 FY23	1,211	13%	13%
Q2 FY24	1,500	16%	16%

₹1.60 p.s Interim Dividend 25% Payout

### Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023

Sr No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year ended		Year ended
		30.09.2023 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	
1	Revenue from operations	245,275.49	211,793.61	392,122.22	185,709.10	525,139.11
2	Other income	845.30	479.68	1,341.95	1,324.38	4,210.17
3	Total income	246,120.79	212,273.29	393,464.17	187,033.48	529,349.28
4	Total expense	237,338.96	209,228.88	385,546.38	184,597.84	513,742.26
5	Earnings before interest and tax	12,226.84	5,052.74	13,968.56	17,279.58	15,607.02
6	Net profit for the period/year (before tax and exceptional items)	9,781.83	2,713.81	12,417.78	12,495.64	17,956.62
7	Net profit for the period/year before tax (after exceptional items and share of profit/loss from associates and joint ventures)	9,822.51	2,832.47	12,425.83	12,654.98	17,155.48
8	Net profit for the period/year after tax (after exceptional items and share of profit/loss from associates and joint ventures)	8,845.97	2,333.58	11,328.73	11,179.55	15,746.62
9	Total comprehensive income for the period/year (comprising profit/loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	11,108.69	3,055.52	10,427.42	14,144.21	15,412.99
10	Paid up equity share capital (face value of ₹2 each)*	2626.64	2,626.69	2,607.93	2,626.64	2,607.93
11	Other Equity	-	-	-	-	102,751.92
12	Earnings/(loss) per share (in ₹) (face value of ₹2 each) - (not annualised)					
	Basic	4.96	1.44	7.19	6.40	10.03
	Diluted	4.88	1.42	7.05	6.30	9.84

\* Note: Face value of ₹2 each is the nominal value of the shares.

Note: a) The Financial Results of the Company/Group for the quarter and half year ended 30th September 2023, have been reviewed by the Audit Committee. b) The financial performance of the Company on standalone basis for the quarter and half year ended 30th September 2023 are (₹ in lakhs):

Particulars	Quarter Ended		Half Year ended		Year ended
	30.09.2023 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	
Turnover	16,565.58	13,295.78	9,749.32	29,775.26	13,797.64
Profit before tax	573.56	525.29	531.01	1,098.79	1,083.26
Profit After tax	412.6	388.70	400.26	801.32	816.42
Total comprehensive income	412.91	388.41	394.74	801.32	868.71

c) The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the Unaudited financial results of the Company and the Company for the quarter and half year ended 30th September 2023 are available on the Company's website ([www.pdsltd.com](http://www.pdsltd.com)) and/or the website of BSE ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and NSI ([www.nsiindia.com](http://www.nsiindia.com)).

For and on behalf of the Board of Directors  
PDS Limited  
(Erstwhile PDS Multinational Fashions Limited)  
(Deepak Kumar Seth)  
Chairman  
DIN: 00003021

RELAXO FLITE | SPARX | Bahamas

CIN: L18101MH01PLC38088  
Registered Office: Unit No. 501, Solitaire Corporate Park, Andheri Glaxozone Link Road, Andheri East, Mumbai-400093, Maharashtra, India | Tel: +91 80 67630900 | +91 22 41441100  
Email: [investors@psdltd.com](mailto:investors@psdltd.com), Website: [www.pdsltd.com](http://www.pdsltd.com)



असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में 1 नवंबर से एलिफेंट सफारी फिर शुरू हो गई। इसके तहत काजीरंगा रेंज, कोहोरा और पश्चिमी रेंज, बांगोरी में टूरिस्ट हाथी पर सैर का आनंद ले सकते हैं।

**नवभारत GOLD**

विश्व की सर्वश्रेष्ठ हिंदी इन्फोटेनमेंट सर्किट

**सुनिए स्पर्शाल पैराक्या**

बच्चा मरी के इन्वेस्टमेंट से सेवक क्रांति आयागी? देखें हम लोग सेवक

सुनने के लिए लांग इन करें

www.navbharatgold.com

**फटाफट खबरें**

**लैंडमाइन ब्लास्ट में तीन जवान घायल**



पीटीआर, मेहर/जम्मू, जम्मू कश्मीर के पुंन जिले में बुधवार को LOC के पास एक ब्लास्ट में सुरक्षा दमकने में सेना के तीन जवान घायल हो गए। ये सैनिक मेहर सेक्टर में फजवाली गली इलाके में राइफ कर रहे थे। इसी दौरान ब्लास्ट में सेना के दो जवान घायल हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से दो सैनिकों को विशेष इलाज के लिए राजपुरी अस्पताल भेजा गया।

**US में भारतीय छात्र को मारती घोषा**



पीटीआर, वाशिंगटन: अमेरिका के इंडियाना राज्य में हमलावर ने रजिस्टर सुक जिम में 24 वर्षीय भारतीय छात्र वरुणा पर चूको से हमला किया। घटना वाशिंगटन शहर की है। हमलावर जॉर्डन एंड्रे को गिरफ्तार कर लिया गया। वरुणा का खामम के चरने वाले हैं।

**सिख की जान ली, हेड फ्राइडम का केस**

पीटीआर, वाशिंगटन: न्यू यॉर्क में फिट बुद्धों की पीट-पीटकर हत्या करने वाले शख्स पर अब अदालत का फैसला होगा। आरोपी रिचर्ड ऑर्किस्टन पर सिद्धि सिद्ध की जा रही है। आरोपी ने कोर्ट में फिट बुद्धों के मृत्यु के बाद जज को आरोपित करने में मदद की। जज ने आरोपी को दोषी ठहरा दिया। आरोपी पर फल्टे हत्या, हत्या करने का आरोप था।

**अफगान नागरिकों को जबरन वापस भेज रहा पाकिस्तान**



पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म, अब हिरासत और गिरफ्तारी शुरू।

एपी, इस्लामाबाद/पेशावर: पाकिस्तान में अखेर रूप से रह रहे अफगान नागरिकों के देश छोड़ने की डेडलाइन 31 अक्टूबर को खत्म हो गई। बुधवार तक 1.40 लाख अफगान नागरिक अपने देश लौट चुके थे। इस बीच, पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने ऐसे अफगान नागरिकों पर कार्रवाई शुरू कर दी। उन्हें हिरासत में लेकर सीमा पर पहुंचाया जा रहा है, जहां उनका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराकर अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक 17 लाख अफगान नागरिक अखेर रूप से पाकिस्तान में रह रहे हैं। इनमें ज्यादातर तालिबान के शासन में लौटने के बाद पाकिस्तान आए हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और मानववादी संगठनों ने पाकिस्तान से डेडलाइन खत्म की कड़ा है।

**सुअर के दिल वाले दूसरे शख्स की मौत**



ट्रांसप्लैंट के बाद 40 दिन जीए लॉस।

आइएनएनएन, न्यू यॉर्क: सुअर का दिल देने वाले दूसरे शख्स की भी मौत हो गई। यह है 58 वर्षीय लॉस फोर्केस्ट, मिनेसोटा ट्रांसप्लैंट के 40 दिन बाद आखिरी संसत वी। उन्हे 20 अक्टूबर को सुअर का दिल ट्रांसप्लैंट किया गया था। वह करीब 6 हफ्ते जीवित रहे और बीते सोमवार को उनकी मौत हो गई। हाल में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर ने कहा कि डॉक्टरों ने सोसित को बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। वह नैबे से रिपयर्ड लेव रेडिकेशन थे। पिछले साल इसी सेंटर में पहली बार 57 साल के डेविड नेनेट को सुअर का दिल लगाया गया था। वह दो महीने जीवित रहे थे।

## पहले दिन 411 लोगों ने पार की गाजा सीमा

संघर्ष में पहली बार इजिप्ट ने रफाह से खोला रास्ता

एपी, रफाह: इज्राइल-हमस संघर्ष के बीच इजिप्ट ने बुधवार को खोल करन राज्या और गाजा सीमा के बाजारों और बाह्य कंटेनरों को निकालने के लिए अपनी पहली सीमा को खोला। पहले दिन इस क्रॉसिंग से दोहरी दिशात्मक वाले 335 लोग और 30 घुसपैठियों 76 वाहन निकले। इजिप्ट ने पहले दिन 500 से ज्यादा विदेशियों और 80 वाहनों को गाजा से निकालने की मंजूरी दी है। सबसे पहले बाजारों को खोलने के लिए गाजा से हजिरा में प्रवेश किया। क्रॉसिंग पर 500 लोग बसस्टैंड के साथ इजिप्ट में रुकी का इंतजार कर रहे हैं। 7 अक्टूबर से शुरू संघर्ष के बाद पहली बार गाजा के आस-पास के लिए किसी सीमा को खोला गया है। अभी तक इस सीमा के जरिये पार का सामान ही गाजा पहुंच रहा था। हमस ने कहा कि इस क्रॉसिंग ने मदद का सामान भी आते रहना चाहिए। रफाह सीमा से सबसे पहले घुसपैठियों को निकाला गया। उसके बाद बाकी लोगों की वार्डि आई। गाजा में करीब 7 हजार लोगों के पास दोहरी दिशात्मक क्रॉसिंग से 10 किलोमीटर दूर इजिप्ट के शहर जुद्ध में फ्रीडम स्क्वायर बनाया गया है। घुसपैठियों को पार दोहरी दिशात्मक क्रॉसिंग से 10 किलोमीटर दूर इजिप्ट के शहर जुद्ध में फ्रीडम स्क्वायर बनाया गया है। घुसपैठियों को पार दोहरी दिशात्मक क्रॉसिंग से 10 किलोमीटर दूर इजिप्ट के शहर जुद्ध में फ्रीडम स्क्वायर बनाया गया है।

<b>8,800</b> मौतों हो चुकी हैं अब तक गाजा में, इनमें 3,650 बच्चे	<b>330</b> सैनिक गंवा चुका है इज्राइल संघर्ष में, 15 मौतों तो 24 घंटों में	<b>22,219</b> फरसतीनी घायल हुए हैं, सभी 13 अस्पताल मरीजों से फुल
---	---	---

### गाजा के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैम्प पर फिर बरसे इज्राइली बम

जवाबिया कैम्प पर इज्राइली गोलाबारी से बड़ा गह्रा हो गया।

एपी, खान युनिस: इज्राइल ने बुधवार को गाजा के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैम्प पर फिर बरसे इज्राइली बम। हमस ने अपने लक्ष्यों के बारे में बताया है। हमस ने कहा कि जवाबिया में मत्सराज के हमले में 7 बच्चों की भी मौत हुई, जिन्हें तैत के बाद रिपेरी हो चुका है। अल इज्जाली सेना ने हवाई हमले कर हमस जवाबिया के इजिप्ट में अपने परिवार के सैनिक कमांडर इज्जालि मियावी 19 सदस्यों को खो दिया। बहा इस्टेनट सलैह 50 लक्ष्यों को मारने का दावा और फेजेन सेक्टर फिर बंद हुई।

### गाजा में भारतवर्षी सैनिक की मौत

गाजा में जारी जांच में भारतीय मूल के 20 साल के इज्राइली सैनिक जॉर्डन एंड्रे को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी रिचर्ड ऑर्किस्टन पर सिद्धि सिद्ध की जा रही है। आरोपी ने कोर्ट में फिट बुद्धों के मृत्यु के बाद जज को आरोपित करने में मदद की। जज ने आरोपी को दोषी ठहरा दिया। आरोपी पर फल्टे हत्या, हत्या करने का आरोप था।

## भारत-बांग्लादेश को करीब लाएंगे रेल-लिंक

प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के हाथों तीन प्रोजेक्ट की वर्चुअली शुरुआत

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रथम श्रेष्ठ हसीना के साथ हिस्टोरिक तौरके से विद्वान से जुड़े तीन बड़े प्रोजेक्टों के शुभारंभ की। इस दौरान मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध नितर नई ऊंचाई तक बढ़ेंगे। नौ नौवीं से दोनों देशों के बीच विमान बन्द हूँगे, उन्ना कई सरकारी चीजें पुरा हूँगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुरा हुआ है।

मोदी और हसीना ने तीन प्रोजेक्ट की शुरुआत की, उनमें हैं: अखीर-अगराला रेल क्रॉस बॉर्डर लिंक। दूसरा है, बुधवार-मौला बंदरगाह रेल लाइन। तिसरे प्रोजेक्ट में बांग्लादेश के गणपत में 'मैत्री सुपर फास्ट पार प्लॉट' को शुरू मुद्रित शुरू हूँगे। इस दौरान मोदी ने भारत को बांग्लादेश का सबसे बड़ा विकास पहलू कर दिया और कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होने से कनिष्ठकतों की भीमत हुई है।

मोदी ने कहा कि सीमा पर शक्ति और स्थिरता की बहाली के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने से विकास पहलू कर दिया और कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होने से कनिष्ठकतों की भीमत हुई है।

करीब दो सौ करोड़ डॉलर के बीच ट्रांसलर रेल सोमवार को ही पुरा हुआ था।

करीब दो सौ करोड़ डॉलर के बीच ट्रांसलर रेल सोमवार को ही पुरा हुआ था।

## बोलिविया ने रिस्ते तोड़े, जॉर्डन ने राजदूत बुलाया

एएफपी, ला पाज: गाजा पर हमलों से नाराज लैटिन अमेरिकी देश बोलिविया ने इज्राइल से कूटनीतिक रिस्ते तोड़ दिए हैं। अमेरिका के सहयोगी देश जॉर्डन, कोलंबिया और वियेन ने भी आपस लोनों की सीमा की निपट करे हुए अपने राजदूतों को इज्राइल से वापस बुला लिया है। हमस से संघर्ष शुरू होने के बाद बोलिविया ने इज्राइल से रिस्ते तोड़ने का फैसला किया है।

इज्राइल से कोलंबिया और वियेन ने भी अपने राजदूत बुलाए

इज्राइल ने कहा कि बोलिविया ने आतंक और इन के सामने चुनौती डक दिए हैं। इससे पहले 2009 में भी गाजा पर हमलों के कारण बोलिविया ने इज्राइल से रिस्ते तोड़े थे।

जॉर्डन ने सुअर को सहायता देने के अपने संकल्प को बहाल कर दिया। इज्राइली राजदूत ने भी कहा है कि वह जॉर्डन से दूर ही रहे। जॉर्डन ने 1994 में सुअर से सति समझौता किया था।

Discover Elegance in Every Thread

SURYANSH FAB

High Fashion Fabrics for Every Occasion

- Exclusive Range: From silks to boutique and designer fabrics
- Make Weddings Memorable: Premium Bridal Silk Fabrics
- Serving both Wholesale & Retail customers
- Trusted by Thousands. Ensuring 100% Customer Satisfaction.

Visit Our Prime Locations:

- Delhi & NCR: Ring Road, Lajpat Nagar, Rajouri Garden, Gurugram (MG Road)
- Jaipur: Tonk Road • Hyderabad: Banjara Hills • Vijayawada: Vinayaka Complex

Reach Us at: 9810163447 @suryanshfab\_official

upto 60% off

SALE

kurta Pajama

Extra fine Fabrics

- Cotton
- Linen
- Silk
- Handloom
- Fashion Fabrics

Chikan Work

- Traditional Embroidery
- Thread Work
- Sequance Work

GURUGRAM- Gymbkhana Club, Sector 29, (Near Hotel Crown Plaza)

PUNCHKUAN ROAD, Garwal Bhawan, (Near Jhandewalan, Gole Chkr.)

WAZIRPUR A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh)

JANAKPURI B-1/2, Main Janajgar Road, Opp. Metro Pillar 543

NOIDA, Nirula's Sec-2, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP

LAJPAT NAGAR, 49, Main Ring Road, Adj. Haldi Ram, Near Moolchand Crossing

### RELAXO FOOTWEARS LIMITED

Regd. Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085 (India), Phones: 91-11-46800600, 46800700, Fax No.: 91-11-46800692

Email: rfi@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com

CIN: L74899DL194PLC019097

#### EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
	Unaudited		Unaudited		Audited
1. Total Income from Operations	725.86	675.31	1471.95	1346.63	2801.34
2. Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary Items)	60.38	30.44	136.15	84.02	210.01
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	60.38	30.44	136.15	84.02	210.01
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	44.19	22.40	100.51	61.07	154.47
5. Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	44.99	24.16	101.80	62.76	156.43
6. Equity Share Capital	24.89	24.89	24.89	24.89	24.89
7. Reserves excluding revaluation reserve	-	-	-	-	1830.16
8. Earnings Per Equity Share of Face Value of ₹/- each (in ₹)					
Basic	1.78	0.90	4.04	2.45	6.21
Diluted	1.78	0.90	4.04	2.45	6.21

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Half Yearly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly / Half Yearly Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.relaxofootwear.com

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/- Pankaj Shrivastava  
Chairperson - Independent Director  
DIN: 00013142

Delhi, November 1, 2023

REGD. NO. D.L.-33904/99

भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

सू.सं.-डी.एल.-33904/99

भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

सू.सं.-डी.एल.-33904/99

नई दिल्ली, बुधवार, सितंबर 21, 2023/भाद्र 30, 1945

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2023/BHADRA 30, 1945

सदक परिषद और राजपत्र मंत्रालय  
अधिष्ठाता  
नई दिल्ली, 21 सितंबर, 2023

का.आ. 4146(क)-केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजपत्र अधिनियम 1956 (1956 भा 48) के अन्तर्गत प्रकाशित करने के लिए अतिरिक्त रूप से प्रकाशित किया गया है।

का.आ. 4146(क)-केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजपत्र अधिनियम 1956 (1956 भा 48) के अन्तर्गत प्रकाशित करने के लिए अतिरिक्त रूप से प्रकाशित किया गया है।

का.आ. 4146(क)-केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजपत्र अधिनियम 1956 (1956 भा 48) के अन्तर्गत प्रकाशित करने के लिए अतिरिक्त रूप से प्रकाशित किया गया है।